

हिंदू मंदिर सुरक्षा दिशा निर्देश

आपके कार्यों से जान बचाई जा सकती है
आभासी सेवाये COVID-19 के प्रसार को रोकने का सबसे सुरक्षित तरीका है।

अंतर्द्वारीय सेवाओं की मेजबानी
के लिए युक्तियाँ


- खुले में घर के अंदर की तुलना में सुरक्षित है
- छोटी सेवाएं लंबी सेवाओं की तुलना में सुरक्षित हैं
- जितने कम लोग हैं उतना ज़्यादा सुरक्षित है
- घर के अंदर होने पर हवादारी तथा वायु प्रवाह बनाए रखे **
- मान लें कि COVID-19 वाला कोई मौजूद है



(सभी स्वामी, महारथ,
कर्मचारी और आगंतुक)
फेस मास्क पहनें



साबुन और पानी से
अक्सर हाथ धोएं



सोशल डिस्टेंसिंग
अभ्यास करें (कम से
कम छह फुट दूर रहें)



यदि आपको COVID जैसे
लक्षण हैं या उजागर हुए
हैं तो घर पर रहें



10 के तहत बच्चों
को घर रहना चाहिए




भोजन साझा करने
से दूर रहे




निजी घरों में आयोजित
धार्मिक समारोहों को 5 या
उससे कम लोगों तक सीमित
करें, कर्मचारीओ समेत



बुजुर्ग 60 + को घर
पर प्रार्थना करनी
चाहिए



गायन उच्च जोखिम और
निषिद्ध है। खासकर
जाप करते समय मास्क
पहनें।



अनुष्ठान वस्तुओं के साथ अतिरिक्त
देखभाल का उपयोग करें।
शंख बजाने को द्रुतसाहित किया जाता है,
इसके बजाय रिकॉर्डिंग का उपयोग करें;
फूल चढ़ाने तथा पवित्र जल बांटने से दूर
रहे; एक नया आचमन कप तैयार करें;
घंटियां, कप और अन्य वस्तुओं को साफ करें



सेवाओं के ठीक बाद
मंदिर से बाहर निकलें

[Kingcounty.gov/covid/faith](https://kingcounty.gov/covid/faith)

** हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट से सलाह लें

Public Health
Seattle & King County



February 11, 2021